



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय  
Office of the Commissioner  
केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय  
Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate  
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015  
GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015  
Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136  
E-Mail : [commrappl1-cexamd@nic.in](mailto:commrappl1-cexamd@nic.in)  
Website : [www.cgstappealahmedabad.gov.in](http://www.cgstappealahmedabad.gov.in)



आजादी का  
अमृत महोत्सव

**By SPEED POST**

DIN:- 20240564SW00004454F4

(क)	फ़ाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/4908/2023
(ख)	अपील आदेश संख्या और दिनांक / Order-In -Appeal and date	AHM-EXCUS-001-APP-20/2024-25 and 30.04.2024
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री ज्ञानचंद जैन, आयुक्त (अपील) Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of Issue	03.05.2024
(ङ)	Arising out of Order-In-Original No. 203/AC/Div-I/HKB/2022-23 dated 26.12.2022 passed by The Assistant Commissioner, CGST, Division-I, Ahmedabad South.	
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	M/s. Mayurkumar Jayantibhai Patel, A/25, Morlimanohar Park, Nr. Prerana High School, Amrai wadi, Ahmedabad-380026

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

**Revision application to Government of India:**


(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए :-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :-

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कटौत के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।



In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम होतो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-  
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2<sup>nd</sup> माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2<sup>nd</sup> floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.



(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपील के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में 'अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6) (i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



अपीलिय आदेश/ ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Mayurkumar Jayantibhai Patel, A/25, Morlimanohar Park, Nr. Prerana High School, Amrai wadi, Ahmedabad - 380026 (hereinafter referred to as "*the appellant*") against Order-in-Original No. 203/AC/Div-I/HKB/2022-23 dated 26.12.2022 (hereinafter referred to as "*the impugned order*") passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division-I, Ahmedabad South (hereinafter referred to as "*the adjudicating authority*").

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant did not obtain service tax registration or pay service tax despite earning substantial service income as per information received from Income Tax Department. They are holding PAN No. BIYPP5950N. Despite reminders and requests for documentation, the appellant failed to submit required details. The nature of their activities falls under taxable services as per the Finance Act, 1994, and they were alleged to have evaded service tax intentionally. The service tax liability for the financial year 2014-15 was calculated based on income reported by the Income Tax Department. On scrutiny of the data received from the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the Financial Year 2014-15, it was noticed that the appellant had earned an income of Rs. 50,26,356/- during the F.Y. 2014-15. Accordingly, it appeared that the appellant had earned the said substantial income by way of providing taxable services but had neither obtained Service Tax Registration nor paid the applicable service tax thereon. The appellant were called upon to submit required documents for the said period. However, the appellant had not responded to the letters issued by the department. As per the information/data received by the Income Tax Department, the appellant's service tax amount, totaling Rs. 6,21,258/-, was subject to recovery along with interest and penalties.



2.1 Subsequently, the appellant were issued Show Cause Notice F.No. V/15-18/Div-I/MAYUR KUMAR JAYANITLAL PATEL/2020-21 dated 11.12.2020, wherein:


- a) Demand and recover an amount of Rs. 6,21,258/- for the period Financial Years 2015-16 under proviso to Sub Section (1) of Section 73 of the Act along with interest under section 75 of the Finance Act 1994 (hereinafter referred to as 'the Act').
- b) Impose penalty under the provisions of Section 77(1), 77(2) and 78 of the Act.

2.2 The Show Cause Notice was adjudicated ex-parte vide the impugned order by the adjudicating authority wherein:

- a) The demand of service tax amounting to Rs. 6,21,258/- was confirmed during the F.Y. 2014-15 under section 73(1) of the Act by invoking extended period along with interest under section 75 of the Act.
- b) Penalty amounting to Rs. 10,000/- was imposed under Section 77(1) of the Act.
- c) Penalty amounting to Rs. 10,000/- was imposed under Section 77(2) of the Act.
- d) Penalty amounting to Rs. 6,21,258/- was imposed under 78 of the Act.

3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal on the following grounds:

- The applicant is engaged in the business of "Job work of parts and accessories for the product Plastic Injection molding machines falling under SH No. 84771000/84779000 on the materials or parts provided by your applicant's client (who is hereunder called as "Principle Manufacturer") i.e. Ashwin Auto-Cast Pvt Ltd (Excise No. AACCA3600KXMOO1



and after processing works such as like machining, grinding, threading in layman language Melting and moulding work as per direction of Principle Manufacturer and as when as product completed that will be send to Principle Manufacture and send for another process to as per direction of Principle Manufacturers and Your applicant is raising the Labor Charges Invoice.

- Section 660 (f) Negative List contain the Activity of Job work and also Mention that No service tax is payable on 'any process amounting to manufacture or production of goods' by your job-worker, as that activity falls under the negative list under Section 66D (f) of the Finance Act, 1944.
- Notification No. 25/2012-ST dated June 20, 2012 - S. No. 30 (c) of notification no. 25/2012-ST dated June 20, 2012 exempts 'carrying out any intermediate production process as job-work in relation to any goods on which appropriate duty is payable by the principal manufacturer'. S. No. 30 also covers certain other activities of job-work.

4. The appellant were given opportunities for Personal Hearing on 09.04.2024. Shri Maulikkumar Trivedi, Chartered Accountants, appeared for personal hearing on behalf of the appellant. He informed that the client is jobworker. Duty of excise is discharged by the principal on the manufacturing. He further, request for 3 days' time to submit additional documents such as ITR, Sample Invoice. However, the appellant did not submitted above said documents till date.

5. I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum and the material available on records. It is observed from the records that the present appeal was filed by the appellant on 11.08.2023 against the impugned order dated 26.12.2022 and received by the appellant on 11.01.2023. It is observed that the Appeals preferred before the Commissioner (Appeals) are governed by the provisions of Section 85 of the Finance Act, 1994. The relevant portion of the said section is reproduced below:



*“(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 received the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter:*


*Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month.”*

5.1 In terms of Section 85 of the Finance Act, 1994, an appeal before the Commissioner (Appeals) is to be filed within a period of two months from the receipt of the order being appealed. Further, the proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994 allows the Commissioner (Appeals) to condone delay and allow a further period of one month, beyond the two month allowed for filing of appeal in terms of Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.

6. In the instant case, the impugned order dated 26.12.2022 admittedly received by the appellant on 11.01.2023. Therefore, the period of two months for filing the appeal before the Commissioner (Appeals) ended on 10.03.2023. The further period of one month, which the Commissioner (Appeals) is empowered to condone for filing appeal ended on 10.04.2023. Therefore, the present appeal was filed by the appellant on 11.08.2023 is, therefore, filed beyond the Condonable period of one month as prescribed in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994 and is time barred.


6.1 My above view also finds support from the judgment of the Hon’ble Tribunal, Ahmedabad in the case of Zenith Rubber Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Central Excise and Service Tax, Ahmedabad – 2014 (12) TMI 1215 – CESTAT, Ahmedabad. In the said case, the Hon’ble Tribunal had held that :

*“5. It is clear from the above provisions of Section 85(3A) of the Finance Act, 1994 that Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay for a further period of one month. The Hon’ble Supreme Court in the case of Singh Enterprises (supra) held that Commissioner (Appeals) has no power to condone the delay beyond the prescribed period. In our considered view, Commissioner (Appeals) rightly rejected the appeal following the statutory provisions of the Act. So, we do not find any reasons to interfere in the impugned order. Accordingly, we reject the appeal filed by the appellant.”*



7. In view of the above discussions and following the judgment of the Hon'ble Tribunal, supra, I do not find this a fit case for exercising the powers conferred vide Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994. Therefore, I reject the appeal filed by the appellant on the grounds of limitation.

8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।  
The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.



(ज्ञानचंद जैन)

आयुक्त (अपील्स)

Dated: 26.04.2024

सत्यापित /Attested:



(मोहित कुमार)

अधीक्षक(अपील्स)

केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद

**By RPAD / SPEED POST**



To,  
M/s. Mayurkumar Jayantibhai Patel,  
A/25, Morlimanohar Park, Nr. Prerana High School,  
Amrai wadi, Ahmedabad - 380026

**Copy to :**

- 1) The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
- 2) The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South
- 3) The Deputy/Assistant Commissioner (RRA), CGST. Ahmedabad South.
- 4) The Deputy/Assistant Commissioner, CGST, Division-I , Ahmedabad South
- 5) The Supdt.(Systems) Appeals Ahmedabad, with a request to upload on Website,
- 6) Guard File
- 7) PA file